



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 143]

नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 17, 1982/चैत्र 27, 1904

No. 143]

NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 17, 1982/CHAITRA 27, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

धन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 1982

का. आ. 269(अ).—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अप्रैल, 1982 के 18वें दिन को उस तारीख के रूप में नियत करती है; जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) और अध्याय 5 और 6 (धारा 76 की उप-धारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) के उपबन्ध पंजाब राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

“निम्नलिखित राजस्व ग्रामों के अन्तर्गत क्षेत्र :—

जिला संगरूर में—

- (1) बरनाला हद बस्त नं. 53,
- हरिगढ़ हद बस्त नं. 54,

(2) जिला भटिण्डा में—

भटिण्डा हद बस्त नं. 50,
हाजी रतन हद बस्त नं. 60,
फूस मण्डी हद बस्त नं. 60 तथा
जस्ती गोवाना हद बस्त नं. 61 ।”

[संख्या एस-38013/11/82-एच. आई.]

ए. के. भट्टराई, अवर सचिव

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th April, 1982

S.O. 269(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 18th day of April, 1982 as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI (except sub-section (1) of section 76 and sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into

force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Punjab, namely :—

"The areas within the revenue villages :—

- (i) Barnala Had Bast No. 55
Harigarh Had Bast No. 54
in the District of Sangrur.
- (ii) Bhatinda Had Bast No. 70,
Hazi Rattan Had Bast No. 69,
Phus Mandi Had Bast No. 60 and
Jassi Powali Had Bast No. 61
in the District of Bhatinda."

[File No. S-38013/11/82-HI]
A. K. BHATTARAI, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 1982

का. आ. 270(अ).—भारत सरकार, धर्म मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 80(ई) तारीख 29 जनवरी, 1980 द्वारा, जो दिनांक 29 जनवरी, 1980 के भारत के राजपत्र (असाधारण) के भाग 2, खण्ड 3, उप-खण्ड (2), के पृष्ठ 250 से 254 पर प्रकाशित हुआ था, गठित राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण, बम्बई के कार्यालय में पीठासीन अधिकारी का एक पद रिक्त हुआ है ;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 8 के उपबन्धों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार श्री एम. डी. काम्बली को उक्त राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण का पीठासीन अधिकारी नियुक्त करती है।

[संख्या एल-11011/8/79-डी-2 (बी)]
म. सेठ, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 17th April, 1982

S.O. 270(E).—Whereas a vacancy has occurred in the office of the Presiding Officer of the National Industrial Tribunal, Bombay constituted by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 80(E) dated 29th January, 1980 published at pages 250 to 254 of Part II, section 3, sub-section (ii) of the Gazette of India Extraordinary dated the 29th January, 1980 ;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 8 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby appoints Shri M. D. Kambli as the Presiding Officer of the said National Industrial Tribunal, Bombay.

[No. L-11011(8)/79-D.II(B)]
M. SETH, Jt. Secy.